



भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

सैक्टर 19 बी, चण्डीगढ़-160019



प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 16.05.2016

विषय: बीबीएमबी ने अपना स्थापना दिवस मनाया



श्री एस. के. शर्मा, अध्यक्ष, बीबीएमबी, आवासीय फ्लैट्स की आधारशिला रखते हुए।

चण्डीगढ़ : बीबीएमबी द्वारा नंगल टाऊनशिप में बीबीएमबी का 41वां स्थापना दिवस 15.05.2016 को उत्साहपूर्वक मनाया गया। ब्यास परियोजनाओं के कार्य को भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को स्थानान्तरित करने पर भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड का गठन 15 मई, 1976 को हुआ। तब से प्रत्येक वर्ष इस दिवस को बीबीएमबी स्थापना दिवस के रूप में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है।



अध्यक्ष, बीबीएमबी, दीपशिखा प्रज्ज्वलित करके समारोह का शुभारम्भ करते हुए।

इस अवसर पर सर्व प्रथम श्री एस. के. शर्मा, अध्यक्ष, बीबीएमबी ने नंगल में बनने वाले 96 आवासीय फ्लैट्स की आधारशिला रखी। उन्होंने भाखड़ा बांध का भ्रमण करने हेतु आने वाले विजिटर्स की सुविधा हेतु जन सम्पर्क कार्यालय की नवनिर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उसके बाद स्थानीय बीबीएमबी डीएवी पब्लिक स्कूल में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। श्री ए. के. बाली, मुख्य अभियंता भाखड़ा बांध ने श्री एस. के. शर्मा, अध्यक्ष, बीबीएमबी, श्री वी. के. कालरा, सदस्य, विद्युत एवं बीबीएमबी के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

इस अवसर पर अध्यक्ष, बीबीएमबी द्वारा बीबीएमबी में उत्कृष्ट सेवा के लिए बीबीएमबी के 124 अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वर्ण पदक, सिलवर शील्ड तथा प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। वर्ग 'घ' के कर्मचारियों को स्वर्ण पदक एवं 5000/- रुपये की नकद राशि से पुरस्कृत किया गया।



अध्यक्ष, बीबीएमबी, अवार्डिज़ को प्रशंसा पत्र प्रदान करते हुए।

इस अवसर पर श्री एस. के. शर्मा, अध्यक्ष, बीबीएमबी ने समारोह का शुभारम्भ करते हुए अपने भाषण में बीबीएमबी की वर्क फोर्स को राष्ट्र निर्माण में उनके असाधारण परिश्रम और समर्पण के लिए बधाई देते हुए हाल ही में प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी कर्मचारियों को मेहनत और ईमानदारी से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के दौरान, बीबीएमबी ने सीईए द्वारा निर्धारित ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य से अधिक उत्पादन ही नहीं किया बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं चण्डीगढ़ की पानी की आवश्यकता को भी संतोषजनक ढंग से पूरा किया। बीबीएमबी के विभिन्न परियोजनाओं के स्कूलों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

इस समारोह में सदस्य, विद्युत, श्री वी. के. कालरा ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर बीबीएमबी परियोजनाओं के सभी मुख्य अभियंता तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।